

## प्रेस विज्ञप्ति

### 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के वित्तीय परिणाम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के लिए बैंक के लेखों का आज अनुमोदन किया।

#### प्रमुख तथ्य

वैश्विक कारोबार	↑ 8.5 % (वार्षिक वृद्धि दर)	वैश्विक जमाराशि	↑ 10.6 % (वार्षिक वृद्धि दर)
खुदरा अग्रिम	↑ 10.0 % (वार्षिक वृद्धि दर)	परिचालन लाभ (9 माह)	↑ 12.7 % (वार्षिक वृद्धि दर)
एनआईएम (तीसरी तिमाही वि.व. 20)	↑ 2.47 %	नकद वसूली	↑ 261.4 % (तिमाही वृद्धि दर)

#### कारोबार निष्पादन:

- वैश्विक कारोबार 8.5 % की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 31 दिसम्बर, 2019 को ₹781155 करोड़ हो गया।
- बैंक की कुल वैश्विक जमाराशि 10.6 % की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 31 दिसम्बर, 2019 को ₹445091 करोड़ हो गयी।
- खुदरा क्षेत्र में 10.0 % की वार्षिक वृद्धि दर के साथ बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम 5.8 % की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 31 दिसम्बर, 2019 को ₹336064 करोड़ हो गया।
- कासा आधार तिमाही दर तिमाही 57 बीपीएस से बढ़कर 31 दिसंबर, 2019 को 34.40 % हो गया।

#### परिचालन कार्य निष्पादन:

- शुद्ध ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के ₹2493 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में 25.7% की दर से बढ़कर ₹3134 करोड़ हो गया।
- घरेलू शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के 2.23 % के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में सुधार के साथ 2.55 % हो गया।
- परिचालन लाभ अप्रैल-दिसम्बर 2018 के ₹5791 करोड़ के सापेक्ष अप्रैल-दिसम्बर 2019 में 12.7 % की वृद्धि के साथ ₹6528 करोड़ हो गया।
- शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में ₹1194 करोड़ की हानि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में ₹575 करोड़ रहा।

#### आस्ति गुणवत्ता :

- सकल एनपीए अनुपात 30 सितंबर, 2019 को 15.24 % के सापेक्ष 31 दिसंबर, 2019 को घटकर 14.86 % हो गया।
- नकद वसूली वित्तीय वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के ₹624 करोड़ के सापेक्ष 261.4 % की दर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में ₹2255 करोड़ हो गयी।



शुद्ध एनपीए अनुपात 30 सितंबर, 2019 को 6.98 % के सापेक्ष 31 दिसंबर, 2019 को 6.99 % रहा.

प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 दिसंबर, 2019 को 67.42 % रहा.

**पूँजी पर्याप्तता :**

टियर - I और कॉमन इक्विटी टियर - 1 पूँजी अनुपात क्रमशः 12.69 % और 11.35 % रहा.

बासल III के अंतर्गत बैंक का जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात 14.71 % रहा.

-----X-----

दिनांक : 10 फरवरी, 2020

स्थान : मुंबई

प्रसिद्धि